



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 श्रावण 1946 (श०)

(सं० पटना 760) पटना, शुक्रवार, 9 अगस्त 2024

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

8 अगस्त 2024

सं० एसीस-01/नि०-29/2014-768—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल "बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाईफ) (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) संवर्ग नियमावली, 2016" में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।—

- (1) यह नियमावली "बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाईफ) (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) संवर्ग (संशोधन) नियमावली 2024" कही जा सकेगी।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. "बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाईफ) (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) संवर्ग नियमावली, 2016" के नियम-2 (v) का प्रतिस्थापन।— उक्त नियमावली का नियम-2 (v) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा —

(v) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार तकनीकी सेवा आयोग;

3. "बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाईफ) (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) संवर्ग नियमावली, 2016" के नियम 6 के उपनियम (2) का प्रतिस्थापन।— उक्त नियमावली के नियम 6 का उपनियम (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा —

"(2) आयु।— सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होगी और अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा, समय-समय पर आरक्षण कोटिवार, विनिश्चित की जाय, परन्तु नियमित नियुक्ति किये जाने के क्रम में बिहार राज्य के अन्दर अवस्थित सभी सरकारी/गैर निजी (केन्द्र सरकार, पंचायत, नगर निगम आदि)

अस्पतालों में संविदा नियोजित ए०एन०एम० को पूर्व में किये गये कार्य अवधि के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जायेगी। किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जायेगा। विज्ञापन वर्ष की 1ली अगस्त को उम्र के अवधारण हेतु कट-आफ-डेट माना जाएगा।

- (3) संविदा नियोजित कर्मियों को उम्र सीमा में शिथिलीकरण एवं कार्य अनुभव के आधार पर नियुक्ति में अधिमानता का लाभ सिर्फ उसी पद पर नियमित नियुक्ति के समय दिया जायेगा जिस पद पर संविदा नियोजन के तहत कार्य किया गया हो।

4. "बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाइफ) (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) संवर्ग नियमावली, 2016" के नियम-7 के उपनियम (2) का प्रतिस्थापन।— उक्त नियमावली के नियम-7 का उपनियम (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा —

- "(2) अध्यायना के आलोक में आयोग रिक्रियों को विज्ञापित कर आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा और निम्नलिखित के आधार पर मेधासूची तैयार करेगा:—

(क) प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्तांक के लिए	— 60 अंक
(ख) उच्चतर कोर्स के लिए (जी०एन०एम०-10, बी०एस०सी० (नर्सिंग), पोस्ट बेसिक बी०एस०सी० नर्सिंग, एम०एस०सी० (नर्सिंग)-15)	— 15 अंक
(ग) बिहार राज्य के अन्दर अवस्थित सभी सरकारी/गैर निजी (केन्द्र सरकार, पंचायत, नगर निगम आदि) अस्पतालों में कार्य अनुभव प्रति वर्ष के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक (किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यदिवसों की संख्या में 05 से गुणा करने के पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जायेगा।)	— 25 अंक
कुल	— 100 अंक

स्पष्टीकरण:— प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जाने वाले अंकों का अवधारण प्रतियोगिता परीक्षा में कुल अंकों के प्रतिशत को 0.6 के गुणक से गुणा कर करना होगा। यथा, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे $50 \times 0.6 = 30$ अंक दिये जायेंगे।

5. "बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाइफ) (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) संवर्ग नियमावली, 2016" के नियम-8 का प्रतिस्थापन।— उक्त नियमावली के नियम-8 के निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा—

- "(8) **परिवीक्षा अवधि।**— आयोग की अनुशंसा से सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मों 01 (एक) वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर इसे 01 (एक) और वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।"

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजीव रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधिसूचना

8 अगस्त 2024

सं० एसीस-01/नि०-29/2014-769, संख्या 768 दिनांक 8 अगस्त 2024 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजीव रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव।

Labour Resources Department

Notification

The 8th August 2024

No- ESIS-01/NI-29/2014-769— In exercise of the power conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is Pleased to make the following Rules to amend the **Bihar Employees State Insurance Scheme Women Health Worker (Auxiliary Nurse Midwife) (Recruitment, Promotion and Service Condition) Cadre Rules, 2016**.

1. *Short title, extent and commencement:—*

- (1) These 'Rules' may be called the "**Bihar Employees State Insurance Scheme Women Health Worker (Auxiliary Nurse Midwife) (Recruitment, Promotion and Service Condition) Cadre (Amendment) Rules, 2024**"
- (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- (3) It shall come into force at once.

2. *Substitution of rule-2 (v) of the "Bihar Employees State Insurance Scheme Bihar Employees State Insurance Scheme Women Health Worker (Auxiliary Nurse Midwife) (Recruitment, Promotion and Service Condition) Cadre Rules, 2016":-*

Clause (v) Rule 2 of the said Rules shall be substituted by the following:-

"(V) 'Commission' means the Bihar Technical Service Commission;"

3. *Substitution subrule (2) of rule-6 of the "Bihar Employees State Insurance Scheme Women Health Worker (Auxiliary Nurse Midwife) (Recruitment, Promotion and Service Condition) Cadre Rules, 2016":-* Subrule (2) of rule-6 the said Rules shall be substituted by the following:-

"(2) **Age:-** The minimum age limit for direct recruitment will be 21 years and the maximum age limit will be the same as decided by the Government (General Administration Department) from time to time, reservation category wise, but in order to make regular appointments, the State of Bihar in all the government/non private (Central Government, Panchayat, Municipal Corporation etc.) hospitals located under the contract ANMs employed on contract will be given relaxation in the maximum age limit equal to the period of work done earlier every year part of any working year will also be included in this. 1st August of the concerned year shall be deemed to be the cut off date for determination of age.

- (3) Contractual Employees, the benefit of relaxation in the above mentioned age limit on the basis of work experience will be given only at the time of regular appointment to the same post on which work has been done under contract employment."

4. *Substitution subrule (2) of rule-7 of the "Bihar Employees State Insurance Scheme Women Health Worker (Auxiliary Nurse Midwife) (Recruitment, Promotion and Service Condition) Cadre Rules, 2016":-* Subrule (7) of rule-6 the said Rules shall be substituted by the following:-

"(2) In view of the requisition the Commission shall invite applications by advertising vacancies and shall prepare a merit list on the following basis:-

- | | | |
|---|---|-----------------|
| (a) For marks obtained in competitive examination | — | 60 Marks |
| (b) For higher course (GNM-10 marks, B.Sc.(N), P.B.B.Sc. (N), M.Sc. (N) | — | 15 Marks |

- (c) Work experience in all government/non-Private (Central Government, Panchayat, Municipal Corporation etc.) hospitals located within the State of Bihar for 5 Marks per year, maximum 25 marks (05 in the number of working days for part of a year) After multiplying by 365, the proportional score obtained by deviding by 365 will be added.) — **25 Marks**

Total — 100 Marks

Explanation:- The marks to be given to a candidate for competitive examination shall be determined by multiplying the percentage of total marks obtained in the aforesaid examination by the multiple of 0.6 For example, if a candidate has obtained 50% marks, then he will be given $50 \times 0.6 = 30$ marks."

5. Substitution rule-8 of the "Bihar Employees State Insurance Scheme Women Health Worker (Auxiliary Nurse Midwife) (Recruitment, Promotion and Service Condition) Cadre Rules, 2016":- Rule-8 of the said Rules shall be substituted by the following:-

- "(8) On the recommendation of the Commission, the personnel appointed by direct recruitment will remain on probation for 01 (one) year. If the service is not satisfactory during the probation period, it can be extended for 01 (one) year. If the service is not satisfactory even in the extended period, the service can be terminated."

**By the order of the Governor of Bihar,
RAJEEV RANJAN,
Joint Secretary to Government.**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 760-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>